

Worksheet 1 - Solutions

प्रश्न 1 - निबन्ध

1) कीजी में सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के उपाय

Hints

- विभिन्न सड़कों पर निर्धारित गति सीमा में रहना चाहिए।
- साइकिल / मोटर चलाने से पहले हमेशा हेल्मेट, सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाएं।
- हमेशा याद रखें कि "सुरक्षा बचाता है।"
- शराब पी कर गाड़ी न चलाए।
- मौन का प्रयोग न करें।
- सड़क पर आने से पहले ट्रैफिक सिग्नल तथा सुरक्षा नियमों का पालन करें।
- दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सड़क सुरक्षा नियम सर्वोत्तम साधन है।

Marking Scheme

योजना	तरीका	परिचय	सामग्री	उपसंहार	शुद्धता	
2	3	1	4	1	3	25

(1)

② हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथों में है

2

Plan / Hints

- स्वास्थ्य एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक कल्याण को दर्शाता है।
- अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए व्यक्ति को शारीरिक क्रियाओं में रहित होना चाहिए।
- हम कैसे अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं।
 - अपूर्ण पदार्थों पर ध्यान रखना चाहिए।
 - मल, सब्जियां खाना चाहिए
 - पीने (या खाने) से पहले हाथ धोने
 - कुदृग्मना से नाश्ता करें।
 - अपने आप को सुखा मत रखी
 - कसरत करना चाहिए

③ विद्यार्थी किसी एक घटना पर अपना लेख लिख सकते हैं।

- खुशी के पल
- कोई ऐसा घटना जिस से खुशी मिलती है, सम्मान मिला जैसे 'सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार' आदि पर प्रकाश डाल सकते हैं।

प्रश्न 2 अनुवाद

3

पीछा में तूफान का मौसम नवंबर से अप्रैल तक होता है। लोगों को तैयारी करनी चाहिए यदि मौसम केंद्र से चक्रवात का चेतावना जारी की जाती है। उन्हें जरूरी चीजें इकट्ठा करना चाहिए जैसे भोजन, बैटरी और साफ पानी। अगर पेड़ या शाखाएं घर के करीब हैं तो उन्हें काट देना चाहिए ताकि नुकसान न हो। आपदा तैयारी लोगों को जान बचा सकता है।

प्रश्न 3 व्याख्या

(क) 1) लगी / लगती

2) जाती

(ख) अध्यापक ने कहा कि कल सभी छात्र पुस्तक न लाना

(2) धनवान को हमेशा गरीबों की मदद करना चाहिए।

(ग) 1) शक्ति

2) शायद

3) बीमार

4) क्यों कि